



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख 1932 (श0)
(सं0 पटना 284) पटना, बृहस्पतिवार, 22 अप्रील 2010

वित्त विभाग

अधिसूचना

16 अप्रील 2010

सं0 एम04-28/2007/(खंड)/4118/वि0(2)—वित्त विभाग, विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 3024, दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा श्री मिसवाह बारी, उप सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, को मानव संसाधन एवं विकास विभाग, को आंतरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया था ।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 2522, दिनांक 17 मार्च 2010 के द्वारा श्री मिसवाह बारी, उप-सचिव को संयुक्त सचिव के पद पर दिनांक 01 अप्रील 2010 के प्रभाव से प्रोन्नति दिये जाने के आलोक में श्री मिसवाह बारी, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग को मानव संसाधन विकास विभाग का आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया जाता है ।

3. वित्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
खुर्शीद अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 284-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>